

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 256]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 7 अप्रैल 2010—चैत्र 17, शक 1932

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2010

क्र. एफ-15-44-2005-दस-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 यथा-संशोधित 2002 की धारा 4 (1) (BB) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, डॉ. राकेश विजयवर्गीय, सहायक प्राध्यापक को इंदौर, श्री सी.एस. पाण्डे, सेवानिवृत्त (राज्य वन सेवा) अधिकारी को शिवपुरी, श्री शिवप्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त वनपाल को जिला सिंगरौली तथा श्री ज्ञानचंद शर्मा को जिला बालाघाट के लिये जिला मानसेवी वन्यप्राणी अभिरक्षक के रूप में अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से एक वर्ष के लिये नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शर्मा, अपर सचिव.